



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०१ पटना, बुधवार, १४ पौष १९४४ (श०)  
४ जनवरी २०२३ (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१- नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-95
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेशों के आदेश।	---
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-४-बिहार अधिनियम	---
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-९-विज्ञापन	---
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	96-97
पूरक	---
पूरक-क	---

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

विधि विभाग

-----

अधिसूचनाएं

18 नवम्बर 2022

एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अरूण कुमार प्रसाद, नोटरी, पटना का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-6920/जे0 दिनांक- 15.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-21/2003/9448/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

18 नवम्बर 2022

एस0ओ0 1, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-21/2003/9448/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 18<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 1 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Arun Kumar Prasad Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 6920 /J dated- 15-09-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not(s)-21/2003/9448/J)

By Order of the Governor of Bihar

**Umesh Kumar Sharma,**

Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

-----

23 नवम्बर 2022

एस0ओ0 2, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रीमती सुमन कुमारी, नोटरी, बेगूसराय का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0- 7187 दिनांक- 27.09.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952

(53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-27/2006/9549/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

23 नवम्बर 2022

एस०ओ० 2, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-27/2006/9549/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 23<sup>rd</sup> November 2022*

S.O. 2 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Srimati Suman Kumari, Notary Public, Begusarai whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7187/J dated- 27-09-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-27/2006/9549/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma,**

Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

-----  
29 नवम्बर 2022

एस०ओ० 3, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री अरूण कुमार भारती नोटरी, अधिवक्ता, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं०-7349/जे० दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते हैं।

(सं०सं०-ए०/नोट-28/2007/9681/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

29 नवम्बर 2022

एस०ओ० 3, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-ए०/नोट-28/2007/9681/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 29<sup>th</sup> November 2022

S.O. 3 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Arun Kumar Bharti, Notary Public, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7349 /J dated- 04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-28/2007/9681/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma,**

Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

9 सितम्बर 2022

एस0ओ0 4, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7459/जे0, दिनांक-08.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेन्द्र मिश्र	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दरभंगा	08.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	दरभंगा जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट-07/2003/7741/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

9 सितम्बर 2022

एस0ओ0 4, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-07/2003/7741/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

The 9<sup>th</sup> September 2022

S.O. 4 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Surendra Mishra** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-

8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7459/J dated 08.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 08.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Surendra Mishra	Advocate-cum-Notary Civil Court Darbhanga	08.10.2012	B.A. L.L.B.	Darbhanga Distt.-	

(File no. -A/Not-07/2003/7741/J)  
By order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma,**  
Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 5, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7426/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जगन्नाथ महतो, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जगन्नाथ महतो	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मधुबनी	05.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	मधुबनी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2006/9496/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 5, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/2006/9496/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 21<sup>st</sup> November 2022

S.O. 5 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jagannath Mahto** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7426/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2022**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Jagannath Mahto</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Madhubani	05.10.2012	B.Sc. L.L.B.	Madhubani Distt.-	

(File no. -A/Not-61/2006/9496/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma,**

Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

-----  
21 नवम्बर 2022

एसओ 6, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7135/जे0, दिनांक-25.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री जफर इमाम, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जफर इमाम	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज	25.09.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	गोपालगंज जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट-42/2012/9498/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 6, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-42/2012/9498/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 21<sup>st</sup> November 2022*

S.O. 6 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jafar Imam** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7135/J** dated **25.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **25.09.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Jafar Imam</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court Gopalganj	25.09.2012	M.A. L.L.B.	Gopalganj Distt.-	

(File no. -A/Not-42/2012/9498/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma,**

Joint Secretary-Cum- Additional Legal Remembrancer.

(Competent Authority)

16 नवम्बर 2022

एस0ओ0 7, दिनांक 4 जनवरी 2023---नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4171/जे0, दिनांक-02.12.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दशरथ प्रसाद महतो, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.12.2021 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दशरथ प्रसाद महतो	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, लखीसराय	02.12.1998	बी0ए0 एल0एल0बी0	लखीसराय जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट-83/1994/9302/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

16 नवम्बर 2022

एस0ओ0 7, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-83/1994/9302/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 16<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 7 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Dashrath Prasad Mahto** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4171/J** dated **02.12.1998** to practice as notary again for the next five year from **02.12.2021**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Dashrath Prasad Mahto</b>	Advocate-cum- Notary Civil Court, Lakhisarai	02.12.1998	B.A. L.L.B.	Lakhisarari Distt.-	

(File no. -A/Not-83/1994/9302/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.

(Competent Authority)



22 नवम्बर 2022

एस0ओ0 8, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-431/जे0, दिनांक-01.02.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम कृष्ण सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.02.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम कृष्ण सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जमुई	01.02.2002	बी0ए0 बी0एल0	जमुई जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/1998/9517/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

22 नवम्बर 2022

एस0ओ0 8, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-93/1998/9517/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 22<sup>nd</sup> November 2022

S.O. 8 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Krishna Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 431/J dated 01-02-2002 to practice as notary again for the next five year from 01.02.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Krishna Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court, Jamui	01.02.2002	B.A. B.L.	Jamui Distt.-	

(File no. -A/Not-93/1998/9517/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

16 नवम्बर 2022

एस0ओ0 9, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7425/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश शर्मा,	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, छपरा, जिला-सारण	05.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सारण (छपरा) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-08/03/9303/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 नवम्बर 2022

एस0ओ0 9, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-08/03/9303/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 16<sup>th</sup> November 2022

S.O. 9 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash Sharma** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7425/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Om Prakash Sharma</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Chapra (Dist.-Saran)	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Saran (Chapra) Distt.-	

(File no. -A/Not(D)-08/2003/9303/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
15 नवम्बर 2022

एसओ 10, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रभु प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रभु प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गया	05.10.2012	बी0कॉम0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/1994/9249/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एसओ 10, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/1994/9249/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 10 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Prabhu Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below,

the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7427/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Parabhu Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court, Gaya	05.10.2012	B.Com. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not-40/1994/9249/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 11, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5515/जे0, दिनांक-08.08.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 शाहिद वजीह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.08.2020 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मो0 शाहिद वजीह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, लहेरियासराय, जि0-दरभंगा	08.08.1994	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	दरभंगा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/1991/9247/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 11, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/1991/9247/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 15<sup>th</sup> November 2022

S.O. 11 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Md. Shaheed Wajeed** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5515/J** dated **08.08.1994** to practice as notary again for the next five year from **08.08.2020**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Md. Shaheed Wajeed</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Laheriasarai, Dist- Darbhanga	08.08.1994	B.Sc. L.L.B.	Darbhanga Distt.-	

(File no. -A/Not-32/1991/9247/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
16 नवम्बर 2022

एसओओ 12, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4741/जे0, दिनांक-24.11.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री कैलाश विश्वास**, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-24.11.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कैलाश विश्वास	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सहरसा	24.11.2003	बी0ए0 एल0एल0बी0	सहरसा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2001/9300/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 नवम्बर 2022

एसओ 12, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-27/2001/9300/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 16<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 12 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kailash Biswas** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **4741/J** dated **24.11.2003** to practice as notary again for the next five year from **24.11.2018**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Kailash Biswas</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Saharsa	24.11.2003	B.A. L.L.B.	Saharsa Distt.-	

(File no. -A/Not-27/2001/9300/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.****(Competent Authority)**

23 नवम्बर 2022

एसओ 13, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7425/जे०, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रमेश कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, सोनपुर, जिला-सारण (छपरा)	05.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2005/9548/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

23 नवम्बर 2022

एस0ओ0 13, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2005/9548/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 23<sup>rd</sup> November 2022*

S.O. 13 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ramesh Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7425/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Ramesh Kumar</b>	Advocate-cum-Notary Subdivisional Court Sonapur, Saran	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Saran Distt.-	

(File no. -A/Not-09/2005/9548/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

29 नवम्बर 2022

एसओ 14, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7427/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, टेकारी, गया	05.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	गया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2002/9679/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

29 नवम्बर 2022

एसओ 14, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-45/2002/9679/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 29<sup>th</sup> November 2022

S.O. 14 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arun Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7427/J dated 05-10-2012 to practice as notary again for the next five year from 05-10-2022.



Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arun Kumar	Advocate-cum-Notary Subdivisional Court, Tekari, Gaya	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Gaya Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-45/2002/9679/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

29 नवम्बर 2022

एसओओ 15, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मथुरा प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मथुरा प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पुपरी, सीतामढ़ी	15.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-26/2012/9706/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

29 नवम्बर 2022

एसओओ 15, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-26/2012/9706/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 29<sup>th</sup> November 2022

S.O. 15 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Mathura Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated **15-10-2012** to practice as notary again for the next five year from **15-10-2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Mathura Prasad</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Pupri, Sitamarhi	15.10.212	B.A. L.L.B.	Sitamarhi Distt.-	

(File no. -A/A.J.-26/2012 /9706/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.****(Competent Authority)**-----  
2 नवम्बर 2022

एसओ 16, दिनांक 4 जनवरी 2023---नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7425/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार व्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेन्द्र प्रसाद राय	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, सोनपुर, जिला-सारण (छपरा)	05.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-14/2004/8920/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।****(सक्षम प्राधिकार)**

2 नवम्बर 2022

एस0ओ0 16, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(डी)-14/2004/8920/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 2<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 16 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rajendra Prasad Ray** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7425/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Rajendra Prasad Ray</b>	Advocate-cum-Notary S.D.M. Court, Sonepur, Distt-Saran	05.10.2012	B.A. L.L.B.	Saran (Chapra) Distt.-	

(File no. -A/Not(D)-14/2004/8920/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.**

**(Competent Authority)**

-----  
29 नवम्बर 2022

एस0ओ0 17, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7294/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम दयाल सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम दयाल सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, भभुआ	03.10.2012	बी०ए० एल०एल०बी०	कैमूर (भभुआ) जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-25/2006/9705/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

29 नवम्बर 2022

एस०ओ० 17, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-25/2006/9705/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 29<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 17 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Dayal Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7294/J** dated **03-10-2012** to practice as notary again for the next five year from **03.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Ram Dayal Singh</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Bhabhua, Kaimur	03.10.2012	B.A. L.L.B.	Kaimur (Bhabhua) Distt.-	

(File no. -A/Not-25/2006/9705/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

5 दिसम्बर 2022

एसओ 18, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5692/जे0, दिनांक-30.11.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.11.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जनार्दन प्रसाद सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर, भोजपुर	30.11.1996	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	जगदीशपुर अनुमंडल, भोजपुर जिलान्तर्गत	

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/1994/9872/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

5 दिसम्बर 2022

एसओ 18, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-07/1994/9872/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 5<sup>th</sup> December 2022

S.O. 18 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Janardan Prasad Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5692/J** dated **30.11.1996** to practice as notary again for the next five year from **30.11.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Janardan Prasad Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court, Jagdishpur, Bhojpur	30.11.1996	B.Sc. L.L.B.	Jagdishpur Subdivision under Bhojpur Distt.-	

(File no. -A/Not-07/1994/9872/J)  
By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
7 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 19, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7135/जे0, दिनांक-25.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री देवेन्द्र कुमार यादव अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री देवेन्द्र कुमार यादव	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज	25.09.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	गोपालगंज जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2007/9969/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

7 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 19, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2007/9969/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 7<sup>th</sup> December 2022

S.O. 19 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Devendra Kumar Yadav** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7135/J** dated **25-09.2012** to practice as notary again for the next five year from **25-09-2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Shri Devendra Kumar Yadav</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Gopalganj	25.09.2012	M.A. L.L.B.	Gopalganj Distt.-	

(File no. -A/Not-22/2007/9969/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.**

(Competent Authority)

-----  
7 दिसम्बर 2022

एसओ 20, दिनांक 4 जनवरी 2023---नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7135/जे0, दिनांक-25.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री राम विलास मांझी**, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
<b>श्री राम विलास मांझी</b>	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, गोपालगंज	25.09.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	गोपालगंज जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2007/9970/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

7 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 20, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-33/2007/9970/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 7<sup>th</sup> December 2022*

S.O. 20 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Vilas Manjhi** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7135/J** dated **25-09.2012** to practice as notary again for the next five year from **25-09-2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Ram Vilas Manjhi</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Gopalganj	25.09.2012	B.A. L.L.B.	Gopalganj Distt.-	

(File no. -A/Not-33/2007/9970/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.****(Competent Authority)**-----  
7 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 21, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2847/जे0, दिनांक-19.08.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रताप अरुण कुमार, अधिवक्ता, जिनका



नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-19.08.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रताप अरूण कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, वीरपुर अनुमंडल, जिला-सुपौल	19.08.2002	बी0ए0 एल0एल0बी0	वीरपुर अनुमंडल जिला-सुपौल	

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000/9968/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

7 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 21, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-83/2000/9968/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 7<sup>th</sup> December 2022

S.O. 21 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pratap Arun Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2847/J** dated **19.08.2002** to practice as notary again for the next five year from **19.08.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Pratap Arun Kumar</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Birpur Sub-divisional, Dist-Supaul	19.08.2002	B.A. L.L.B.	Birpur Sub-division Distt.-Supaul	

(File no. -A/Not-83/2000/9968/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

9 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 22, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7352/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री एस0 एम0 अरसदुल हक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री एस0 एम0 अरसदुल हक	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर	04.10.2012	बी0कॉम0 एल0एल0बी0	मुंगेर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2012/10025/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

9 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 22, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2012/10025/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 9<sup>th</sup> December 2022

S.O. 22 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri S. M. Arsadul Haque** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7352/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri S. M. Arsadul Haque	Advocate-cum-Notary Civil Court, Munger	04.10.2012	B.Com L.L.B.	Munger Distt.-	

(File no. -A/Not-02/2012/10025/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

9 दिसम्बर 2022

एसओ 23, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7352/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पुरुषोत्तम झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री पुरुषोत्तम झा,	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुंगेर	04.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	मुंगेर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2000/10026/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

9 दिसम्बर 2022

एसओ 23, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-10/2000/10026/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 9<sup>th</sup> December 2022

S.O. 23 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Purushottam Jha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7352/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Purushottam Jha	Advocate-cum-Notary Civil Court, Munger	04.10.2012	M.A. L.L.B.	Munger Distt.-	

(File no. -A/Not-10/2000/10026/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 24, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	04.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2007/9494/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
 (सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 24, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-39/2007/9494/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
 (सक्षम प्राधिकार)

*The 21<sup>st</sup> November 2022*

S.O. 24 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No7347/J dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Om Prakash</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Jehanabad	04.10.2012	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-39/2007/9494/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
 (Competent Authority)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 25, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7239/जे0, दिनांक-28.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री हरिशंकर राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री हरिशंकर राम	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सिवान	28.09.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सिवान जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2007/9497/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 25, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-33/2007/9497/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 21<sup>st</sup> November 2022

S.O. 25 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Hari Shankar Ram** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7239/J dated 28.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 28.09.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Hari Shankar Ram	Advocate-cum-Notary Civil Court, Siwan	28.09.2012	B.A. L.L.B.	Siwan Distt.-	

(File no. -A/Not(s)-33/2007/9497/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 26, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 जावेद अहमद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मो0 जावेद अहमद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	04.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-19/2004/9495/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 26, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-19/2004/9495/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

The 21<sup>st</sup> November 2022

S.O. 26 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Md. Jawaid Ahmad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No7347/J dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Md. Jawaid Ahmad</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court, Jehanabad	04.10.2012	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no.-A/Not(s)-19/2004/9495/J)

By Order of the Governor of Bihar,

Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.

(Competent Authority)

16 नवम्बर 2022

एसओ 27, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3072/जे0, दिनांक-09.07.1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रभु दयाल अग्रवाल अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-09.07.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रभु दयाल अग्रवाल	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद	09.7.1992	बी0ए0 एल0एल0बी0	जहानाबाद जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-12/1991/9299/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 नवम्बर 2022

एसओ 27, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-12/1991/9299/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 16<sup>th</sup> November 2022

S.O. 27 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Prabhu Dayal Agarwal** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952)

and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3072/J dated 09.07.1992 to practice as notary again for the next five year from 09.07.2018.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Prabhu Dayal Agarwal	Advocate-cum-Notary Civil Court, Jehanabad	09.07.1992	B.A. L.L.B.	Jehanabad Distt.-	

(File no. -A/A.B.-12/1991/9299/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 28, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनक राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मनक राम	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, पुपरी	15.10.2012	B.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-02/2007/9239/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 28, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-02/2007/9239/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)



The 15<sup>th</sup> November 2022

S.O. 28 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Manak Ram** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Manak Ram</b>	Advocate-Civil Court Pupri	15.10.2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi District	

(File no. -A/Not(s)-02/2007/9239/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

-----  
15 नवम्बर 2022

एसओ 29, दिनांक 4 जनवरी 2023---नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	बी0ए0 एल0एल0बी0	सतीमढ़ी जिला	

2. निगरानी कांड संख्या-114/17 तथा विशेष कांड संख्या-48/2017 में श्री तिवारी के विरुद्ध संस्थित मामलों के निर्णय से यह व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रभावित हो सकेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-12/2006/9240/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 29, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-12/2006/9240/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 29 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Satendra kumar Tiwari** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated **15-10-2012** to practice as notary again for the next five year from **15-10-2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Satendra kumar Tiwari</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court Sitamarhi	15-10-2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi Distt.-	

2. This Certificate of practice may be affected by the decision of Vigilance Case Number-114/17 and Special Case Number -48/2007 instituted against Shri Tiwari.

(File no. -A/Not(S)-12/2006/9240/J)

By Order of the Governor of Bihar,

**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.

(Competent Authority)

-----  
15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 30, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामबाबू पटेल, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रामबाबू पटेल	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	M.Sc. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-40/2007/9241/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस०ओ० 30, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस)-40/2007/9241/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 30 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Ram Babu patel.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10..2022 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Ram Babu patel	Advocate Civil Court Sitamarhi	15.10.2022	M.Sc. L.L.B	Sitamarhi District	

(File no. -A/Not(S)-40/2007/9241/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.**  
(Competent Authority)

15 नवम्बर 2022

एस०ओ० 31, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और

नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3049/जे0, दिनांक-02.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री धर्म विजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-02.07.2018 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री धर्म विजय कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय पटना	02.07.2003	B.Sc. L.L.B	पटना जिला	

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-18/2001/9242/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 31, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-18/2001/9242/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 31 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Dharm Vijay Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3049/J dated-02.07.2003 to practice as notary again for the next five year from 02.07.2018.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Dharm Vijay Kumar	Advocate-Cum-Notary Civil Court Patna	02.07.2003	B.Sc. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(S)-18/2001/9242/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 32, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3673/जे0, दिनांक-12.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चितरंजन कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-12.11.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री चितरंजन कुमार वर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय पटना	12.11.2002	B.Com. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-93/2000/9245/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 32, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-93/2000/9245/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 15<sup>th</sup> November 2022

S.O. 32 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Chitranjan Kumar Varma**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3673/J dated-12.11.2002 to practice as notary again for the next five year from **12.11.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Chitranjan Kumar Varma	Advocate-Cum- Notary Civil Court Patna	12.11.2002	B.Com. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(S)-93/2000/9245/J)  
By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

15 नवम्बर 2022

एसओ 33, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3584/जे0, दिनांक-01.11.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.11.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विनोद कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय दानापुर, पटना	01.11.2002	B.A. L.L.B	दानापुर अनुमंडल, (पटना जिलांतर्गत)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2001/9243/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एसओ 33, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-93/2000/9245/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 15<sup>th</sup> November 2022

S.O. 33 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Vinod Kumar Singh**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3584/J dated-01.11.2002 to practice as notary again for the next five year from 01.11.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Vinod Kumar Singh	Advocate-Cum-Notary Subdivision Court Danapur	01.11.2002	B.A. L.L.B	Danapur Sub-Division under (Patna District)	

(File no. -A/Not-18/2001/9243/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

15 नवम्बर 2022

एसओ 34, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5411/जे0, दिनांक-22.11.1993 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री देवानन्द प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-22.11.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री देवानन्द प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी पटना समाहरणालय	22.11.1993	L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/1992/9244/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एसओ 34, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/1992/9244/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 34 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Devanand Prasad**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **5411/J** dated-22.11.1993 to practice as notary again for the next five year from **22.11.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Devanand Prasad	Advocate-Cum-Notary Patna Collecteriate	22.11.1993	L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not-72/1992/9244/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 35, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, वैशाली	05.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2004/9238/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 35, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-125/2004/9238/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 35 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Jitendra kumar shingh.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated .05-10-2012 to practice as notary again for the next five year from 05-10-2017.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Jitendra kumar shingh	Advocate-cum-Notary Civil Court (Hajipur) Vaishali	05-10-2012	M.A L.L.B	(Hajipur) Vaishali Distt.-	

(File no. -A/Not-125/2004/9238/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 36, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रघुवीर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रघुवीर प्रसाद सिंह	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय वैशाली	05.10.2012	L.L.B	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-31/2012/9248/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

15 नवम्बर 2022

एस0ओ0 36, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-31/2012/9248/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 15<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 36 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Raghuvir Prasad Singh**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated 05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Raghuvir Prasad Singh	Advocate Civil Court Vaishali	05.10.2012	L.L.B	Vaishali District	

(File no. -A/AJ-31/2012/9248/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

16 सितम्बर 2022

एस0ओ0 37, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-533/जे0, दिनांक-13.02.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **श्री भागीरथी सिंह, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.02.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री भागीरथी सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडल न्यायालय डिहरी	13.02.1999	M.A. L.L.B	डिहरी अनुमंडल (रोहतास, जिलान्तर्गत)	

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/94/7925/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2022

एस0ओ0 37, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-53/94/7925/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 16<sup>th</sup> September 2022

S.O. 37 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bhagirathi Singh**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **553/J** dated 13.02.1999 to practice as notary again for the next five year from **13.02.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bhagirathi Singh	Advocate, Sub-Divisional Court, Dehri	13.02.1999	M.A. L.L.B	Dehri Subdivision (under Rohtas District)	

(File no. -A/Not-53/94/7925/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

16 सितम्बर 2022

एसओ 38, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7439/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री लक्ष्मेश्वर सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ	04.10.2012	B.A. L.L.B	पूर्णियाँ जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2008/7924/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2022

एसओ 38, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2008/7924/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 16<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 38 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Lakshmeshwar Singh.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7349/J** dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Lakshmeshwar Singh	Advocate Civil Court Purnea	04.10.2012	B.A. L.L.B	Purnea District	

(File no. -A/Not-08/2008/7924/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 13 अक्टूबर 2022

एसओ 39, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रदुम्न कुमार सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रदुम्न कुमार सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, (वैशाली)	05.10.2012	B.A. L.L.B	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/8492/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 13 अक्टूबर 2022

एसओ 39, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/8492/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 13<sup>th</sup> October 2022

S.O. 39 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pradumn Kumar Singh.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated -05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pradumn Kumar Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Hajipur (Vaishali)	05.10.2012	B.A. L.L.B	Vaishali Distt.-	

(File no. -A/Not-13/2007/8492/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

12 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 40, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7266/जे0, दिनांक-01.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजेन्द्र प्रसाद प्रभाकर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विजेन्द्र प्रसाद प्रभाकर	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी	01.10.2012	B.A. L.L.B	पूर्वी चम्पारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2004/8484/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

12 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 40, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-129/2004/8484/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 12<sup>th</sup> October 2022

S.O. 40 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Vijendra Prasad Prabhakar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7266/J** dated 01.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **01.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Vijendra Prasad Prabhakar	Advocate-Civil Court Motihari	01.10.2012	B.A. L.L.B	East Champaran District	

(File no. -A/Not-129/2004/8484./J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 13 अक्टूबर 2022

एसओ 41, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री शैलेन्द्र कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय दानापुर	15.09.2012	B.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2001/8521/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 13 अक्टूबर 2022

एसओ 41, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-13/2001/8521/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 13<sup>th</sup> October 2022

S.O. 41 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Shailendra Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated-15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Shailendra Kumar	Advocate-Cum-Notary Civil Court Danapur	15.09.2012	B.A. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(S)-13/2001/8521J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

6 सितम्बर 2022

एसओ 42, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजेश कुमार पाण्डेय	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बगहा	26.09.2012	L.L.B	प0 चम्पारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2006/7640/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

6 सितम्बर 2022

एसओ 42, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2006/7640/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 6<sup>th</sup> September 2022

S.O. 42 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rajesh Kumar Panday** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Rajesh Kumar Panday	Advocate-Sub divisional Court Bagaha	26.09.2012	L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-8/2006/7640/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

31 अगस्त 2022

एसओ 43, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-883/जे0, दिनांक-07.03.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मदन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.03.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मदन कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अरेराज (पूर्वी चम्पारण)	07.03.2002	L.L.B	अरेराज अनुमंडल, (पूर्वी चम्पारण), जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/7468/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

31 अगस्त 2022

एसओ 43, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/2007/7468/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 31<sup>st</sup> August 2022*

S.O. 43 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Madan Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 883/J dated 07.03.2002 to practice as notary again for the next five year from **07.03.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Madan Kumar	Advocate-Sub divisional Court Araraj (East)	07.03.2002	L.L.B	Araraj Sub-division (East Champaran)	

(File no. -A/Not-13/2007/7468/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



1 सितम्बर 2022

एसओ 44, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजू कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजू कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	B.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)36/2006/7540/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

1 सितम्बर 2022

एसओ 44, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)36/2006/7540/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 1<sup>st</sup> September 2022*

S.O. 44 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Raju Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Raju Kumar	Advocate-cum-Notary Civil Court Sitamarhi	15.10.2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)36/2006/7540/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 45, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7233/जे0, दिनांक-27.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार अस्थाना, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण कुमार अस्थाना	अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट, शिवहर	27.09.2012	B.Com. L.L.B	शिवहर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-28/2012/7824/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 45, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-28/2012/7824/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 45 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arun Kumar Asthana**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7233/J** dated 27.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **27.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Arun Kumar Asthana	Advocate Civil Court Sheohar	27.09.2012	B.A. L.L.B	Sheohar District	

(File no. -A/AJ-28/2012/7824/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 46, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री यशकान्त झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री यशकान्त झा	अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय, बेतिया	26.09.2012	M.A. L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2002/7822/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 46, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2002/7822/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 46 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Yash Kant Jha.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Yash Kant Jha	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	M.A. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-28/2002/7822/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 47, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, बेतिया	26.09.2012	B.Sc. L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-9/06/7820/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 13 नवम्बर 2022

एस0ओ0 47, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-9/06/7820/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 13<sup>th</sup> September 2022

S.O. 47 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ajay Kumar Srivastva.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ajay Kumar Srivastva	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	B.Sc. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-9/06/7820/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एसओ 48, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बेतिया	26.09.2012	B.Sc. L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-19/2012/7821/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एसओ 48, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-19/2012/7821/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 48 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Om Prakash	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	B.Sc. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/AJ-19/2012/7821/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एसओ 49, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 जाकिर, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
मो0 जाकिर	अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय प0 चम्पारण, बेतिया	26.09.2012	M.A. L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-22/2012/7819/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एसओ 49, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-22/2012/7819/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 49 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Md. Jakir.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7174/J** dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Md. Jakir</b>	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	M.A. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/AJ-22/2012/7819/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एसओ 50, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुजीत कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुजीत कुमार वर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी, व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज, प० चम्पारण	26.09.2012	B.Com. L.L.B	प० चम्पारण, जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-33/06/7816/जे०)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एसओ 50, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-33/06/7816/जे०)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 50 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sujit Kumar Varma**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sujit Kumar Varma	Advocate Civil Court Narkatiyaganj W. Champaran	26.09.2012	B.Com. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-33/06/7816/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 51, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7233/जे0, दिनांक-27.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री संजय कुमार	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, शिवहर	27.09.2012	M.A. L.L.B	शिवहर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2012/7823/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एस0ओ0 51, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2012/7823/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 51 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sanjay Kumar.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7233/J** dated 27.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **27.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Kumar	Advocate, Civil Court Sheohar	27.09.2012	L.L.B	Sheohar District	

(File no. -A/Not-27/2012/7823/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



12 अक्टूबर 2022

एसओ 52, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7266/जे0, दिनांक-01.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री फणीन्द्रनाथ पाठक, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री फणीन्द्रनाथ पाठक	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी	01.10.2012	M.A. L.L.B	पूर्वी चम्पारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2006/8483/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

12 अक्टूबर 2022

एसओ 52, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2006/8483/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 12<sup>th</sup> October 2022*

S.O. 52 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Phanindra Nath Pathak** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7266/J** dated 01.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **01.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Phanindra Nath Pathak</b>	Advocate-Civil Court Motihari	01.10.2012	M.A. L.L.B	East Champaran District	

(File no. -A/Not-22/2006/8483./J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 13 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 53, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुबोध कुमार अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री सुबोध कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, (वैशाली)	05.10.2012	B.A. L.L.B	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/04/8493/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

## 13 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 53, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-118/04/8493/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।

(सक्षम प्राधिकार)

The 13<sup>th</sup> October 2022

S.O. 53 dated the 4<sup>th</sup> January 2023--- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Subodh Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated -05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Subodh Kumar	Advocate-cum- Notary Civil Court Hajipur (Vaishali)	05.10.2012	B.A. L.L.B	Vaishali Distt.-	

(File no. -A/Not-118/04/8493/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

18 अगस्त 2022

एसओ 54, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3560/जे0, दिनांक-31.10.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजय कुमार पांडेय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-31.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अजय कुमार पांडेय	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर	31.10.2002	B.A. L.L.B	आरा, भोजपुर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2001/7132/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एसओ 54, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/2001/7132/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 18<sup>th</sup> August 2022

S.O. 54 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ajay Kumar Panday**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3560/J** dated 31.10.2002 to practice as notary again for the next five year from **31.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ajay Kumar Panday	Advocate-cum- Notary Civil Court Bhojpur (Ara)	31.10.2002	B.A. L.L.B	Bhojpur Distt.-	

(File no. -A/Not-20/2001/7132/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

18 अगस्त 2022

एसओ 55, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री पवन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री पवन कुमार मिश्रा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	M.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-2/2006/7128/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एसओ 55, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-2/2006/7128/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 18<sup>th</sup> August 2022*

S.O. 55 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pawan Kumar Mishra.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Pawan Kumar Mishra</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court Sitamarhi	15.10.2012	M.A. L.L.B	Sitamarhi Distt.-	

(File no. -A/Not-06/2006/7128/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

18 अगस्त 2022

एसओ 56, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3240/जे0, दिनांक-28.08.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री बच्चन चतुर्वेदी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-28.08.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री बच्चन चतुर्वेदी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोहनिया, कैमूर	28.08.1996	B.A. L.L.B	मोहनिया अनुमंडल (कैमूर जिलातर्गत) जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/1994/7133/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एसओ 56, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/1994/7133/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 18<sup>th</sup> August 2022*

S.O. 56 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bachchan Chaturvedi**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3240/J dated -28.08.1996 to practice as notary again for the next five year from 28.08.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bachchan Chaturvedi	Advocate-cum-Notary Civil Court Mohania	28.08.1996	B.A. L.L.B	Mohania sub-division (under Kaimur Dist.)	

(File no. -A/Not-31/1994/7133/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

26 अगस्त 2022

एसओ 57, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मोहन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मोहन कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	B.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2007/7382/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

26 अगस्त 2022

एसओ 57, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-44/2007/7382/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 26<sup>th</sup> August 2022

S.O. 57 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Mohan Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Mohan Kumar	Advocate-Civil Court Sitamarhi	15.10.2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi Distt...	

(File no. -A/Not-44/2007/7382/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

18 अगस्त 2022

एसओ 58, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3064/जे0, दिनांक-03.09.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अवध बिहारी राम, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अवध बिहारी राम	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पीरो अनुमंडल कोर्ट	03.09.2002	B.A. L.L.B	पीरो अनुमंडल, (भोजपुर), जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/1999/7129/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एसओ 58, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-88/1999/7129/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 18<sup>th</sup> August 2022

S.O. 58 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Awadh Bihari Ram.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **3064/J** dated 03.09.2002 to practice as notary again for the next five year from **03.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Awadh Bihari Ram	Advocate-Sub divisional Court Piro	03.09.2002	B.A. L.L.B	Piro Sub-division	

(File no. -A/Not-88/1999/7129/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.**  
(Competent Authority)

18 अगस्त 2022

एसओ 59, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अशोक कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	B.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-05/2007/7131/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एसओ 59, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-05/2007/7131/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 18<sup>th</sup> August 2022

S.O. 59 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ashok Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ashok Kumar	Advocate-Civil Court Sitamarhi	15.10.2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi Distt..	

(File no. -A/Not-(S)-05/2007/7131/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



18 अगस्त 2022

एस0ओ0 60, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7353/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दिवाकर प्रसाद केशरी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दिवाकर प्रसाद केशरी	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ, नालंदा	04.10.2012	B.A. L.L.B	नालंदा जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-10/2006/7130/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

18 अगस्त 2022

एस0ओ0 60, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-10/2006/7130/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 18<sup>th</sup> August 2022

S.O. 60 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Diwakar Prasad Keshari**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7353/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Diwakar Prasad Keshari	Advocate-cum- Notary Civil Court Biharsarif, Nalanda	04.10.2012	B.A. L.L.B	Nalanda Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-10/2006/7130/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

30 सितम्बर 2022

एसओ 61, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7266/जे0, दिनांक-01.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजन कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-01.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राजन कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी	01.10.2012	B.Com. L.L.B	पूर्वी चम्पारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-7/2002/8343/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

30 सितम्बर 2022

एसओ 61, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-7/2002/8343/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 30<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 61 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rajan Kumar** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7266/J** dated 01.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **01.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Rajan Kumar</b>	Advocate-Civil Court Motihari	01.10.2012	B.Com. L.L.B	East Champaran District	

(File no. -A/Not-7/2002/8343/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

14 सितम्बर 2022

एस0ओ0 62, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विनोद कुमार झा	अधिवक्ता-सह-नोटरी समाहरणालय, पटना	15.09.2012	L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-8/2002/7862/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

14 सितम्बर 2022

एस0ओ0 62, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-8/2002/7862/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 14<sup>th</sup> September 2022

S.O. 62 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Binod Kumar Jha.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated 15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Binod Kumar Jha	Advocate-cum-Notary Collectorate Patna	15.09.2012	L.L.B	Patna Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-8/2002/7862/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 10 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 63, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7641/जे0, दिनांक-15.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री श्रीकान्त राउत, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री श्रीकान्त राउत	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी	15.10.2012	B.A. L.L.B	सीतामढ़ी जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-9/2006/8402/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 10 अक्टूबर 2022

एस0ओ0 63, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-9/2006/8402/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 10<sup>th</sup> October 2022

S.O. 63 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Shrikant Raut**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7641/J** dated 15.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **15.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Shrikant Raut	Advocate-cum-Notary Civil Court, Sitamarhi	15.10.2012	B.A. L.L.B	Sitamarhi Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-9/2006/8402/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

16 सितम्बर 2022

एसओ 64, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मनोज कुमार कर्ण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री मनोज कुमार कर्ण	अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर	03.10.2012	B.Sc.(H) L.L.B	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-1/2008/7958/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2022

एसओ 64, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-1/2008/7958/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 16<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 64 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Manoj Kumar Karn.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7285/J** dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **03.10.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Manoj Kumar Karn</b>	Advocate Muzaffarpur	03.10.2012	B.Sc.(H) L.L.B	Muzaffarpur District	

(File no. -A/Not-1/2008/7958/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

12 सितम्बर 2022

एसओ 65, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री दबिन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री दबिन्द्र प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना	15.09.2012	B.Com. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-81/2002/7797/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

12 सितम्बर 2022

एसओ 65, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-81/2002/7797/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 12<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 65 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Dabindra Prasad**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated 15.09..2012 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Dabindra Prasad	Advocate Civil Court Patna	15.09.2012	B.Com. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(S)-81/2002/7797/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

19 सितम्बर 2022

एसओ 66, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, **मो० सेराजुद्दीन, अधिवक्ता**, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
<b>मो० सेराजुद्दीन</b>	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना	15.09.2012	M.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट(एस०)-20/2002/8006/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2022

एसओ 66, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट(एस०)-20/2002/8006/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**उमेश कुमार शर्मा**, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 19<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 66 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Md Serajuddin.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated 15.09..2012 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Md Serajuddin</b>	Advocate Civil Court Patna	15.09.2012	M.A. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not(s)-20/2002/8006/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 सितम्बर 2022

एस0ओ0 67, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2714/जे0, दिनांक-07.08.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो० आदिल रशीद, अधिवक्ता, पटना जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-07.08.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
मो०आदिल रशीद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना	07.08.2002	M.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं० सं०-ए०/नोट-54/2000/8108/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 सितम्बर 2022

एस0ओ0 67, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-54/2000/8108/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 21<sup>st</sup> September 2022*

S.O. 67 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Md. Adil Rashid** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.2714/J dated 07.08.2002 to practice as notary again for the next five year from 07.08.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Md. ADil Rashid	Advocate-cum-Notary Patna	07.08.2002	M.A. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not-54/2000/8108/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



26 सितम्बर 2022

एसओ 68, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कामेश्वर राय, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कामेश्वर राय	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, (वैशाली)	05.10.2012	L.L.B	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2007/8219/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

26 सितम्बर 2022

एसओ 68, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/2007/8219/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 26<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 68 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kameshwar Ray.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7424/J** dated -05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Kameshwar Ray</b>	Advocate-cum-Notary Civil Court Hajipur (Vaishali)	05.10.2012	L.L.B	Vaishali Distt.-	

(File no. -A/Not-12/2007/8219/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

26 सितम्बर 2022

एसओ 69, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7292/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, मो0 नौशाद हुसैन, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
मो0 नौशाद हुसैन	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अररिया	03.10.2012	B.Sc. L.L.B	अररिया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2006/8220/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

26 सितम्बर 2022

एसओ 69, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-25/2006/8220/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 26<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 69 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Md. Naushad Hussain** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7292/J** dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Md. Naushad Hussain</b>	Advocate-Civil Court Araria	03.10.2012	B.Sc. L.L.B	Araria District	

(File no. -A/Not-25/2006/8220/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

26 सितम्बर 2022

एसओ 70, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7292/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री असीत कुमार वर्मा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री असीत कुमार वर्मा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, अररिया	03.10.2012	B.Com. L.L.B	अररिया जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2006/8221/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

26 सितम्बर 2022

एसओ 70, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-08/2006/8221/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 26<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 70 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Asit Kumar Verma** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7292/J** dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **03.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Asit Kumar Verma	Advocate-Civil Court Araria	03.10.2012	B.Com. L.L.B	Araria District	

(File no. -A/Not-08/2006/8221/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 सितम्बर 2022

एसओ 71, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ब्रजेश कुमार नन्दन, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ब्रजेश कुमार नन्दन	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, दानापुर	15.09.2012	B.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2012/8107/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 सितम्बर 2022

एसओ 71, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2012/8107/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 21<sup>st</sup> September 2022*

S.O. 71 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Brajesh kumar Nandan.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **6920/J** dated 15.09..2012 to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Brajesh kumar Nandan	Advocate Civil Court Danapur	15.09.2012	B.A. L.L.B	Patna District	

(File no. -A/Not-09/2012/8107/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

14 सितम्बर 2022

एसओ 72, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7233/जे0, दिनांक-27.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम प्रताप कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री राम प्रताप कुमार	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, शिवहर	27.09.2012	L.L.B	शिवहर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)28/2007/7865/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

14 सितम्बर 2022

एसओ 72, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)28/2007/7865/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 14<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 72 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Ram Pratap Kumar.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7233/J** dated 27.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **27.09.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Ram Pratap Kumar	Advocate, Civil Court Sheohar	27.09.2012	L.L.B	Sheohar District	

(File no. -A/Not-(S)28/2007/7865/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

14 सितम्बर 2022

एस0ओ0 73, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री चन्द्रभुषण, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री चन्द्रभुषण	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना	15.09.2012	M.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-34/2008/7864/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

14 सितम्बर 2022

एस0ओ0 73, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-34/2008/7864/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 14<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 73 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Chandrabhushan**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6920/J dated 15.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 15.09.2017.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Chandrabhushan	Advocate-cum-Notary Civil Court Patna	15.09.2012	M.A. L.L.B	Patna Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-34/2008/7864/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

14 सितम्बर 2022

एसओ 74, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7233/जे0, दिनांक-27.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री ओम प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-27.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री ओम प्रकाश मिश्रा	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय शिवहर	27.09.2012	B.A. L.L.B	शिवहर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2003/7867/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

14 सितम्बर 2022

एसओ 74, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-109/2003/7867/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 14<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 74 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Om Prakash Mishra**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7233/J** dated 27.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **27.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Om Prakash Mishra	Advocate Civil Court Sheohar	27.09.2012	B.A. L.L.B	Sheohar District	

(File no. -A/Not-109/2003/7867/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

16 सितम्बर 2022

एसओ 75, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7285/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अंजनी कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर।	03.10.2012	B.A. L.L.B	मुजफ्फरपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2004/7959/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

16 सितम्बर 2022

एसओ 75, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-123/2004/7959/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 16<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 75 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Anjani Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7285/J dated 03.10..2012 to practice as notary again for the next five year from 03.10.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Anjani kumar	Advocate-cum-Notary Muzaffarpur	03.10.2012	B.A. L.L.B	Muzaffarpur District	

(File no. -A/Not-123/2004/7959/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 76, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7355/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, आरा, भोजपुर	04.10.2012	B.Sc. L.L.B	भोजपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2002/8008/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 76, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस)-03/2002/8008/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 19<sup>th</sup> September 2022

S.O. 76 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Sri Narendra Pratap Singh.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7355/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Sri Narendra Pratap Singh	Advocate Civil Court Ara, Bhojpur	04.10.2012	B.Sc. L.L.B	Bhojpur District	

(File no. -A/Not(S)-03/2002/8008/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 77, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7294/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, भभुआ (कैमूर)	03.10.2012	L.L.B	कैमूर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/04/8009/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 77, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-31/04/8009/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 19<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 77 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Rabindra Kumar Singh**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7294/J** dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **03.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Rabindra Kumar Singh</b>	Advocate Civil Court Bhabua (Kaimur)	03.10.2012	L.L.B	Kaimur (Bhabua) District	

(File no.-A/Not-31/04/8009/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 78, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7294/जे0, दिनांक-03.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भिखारी प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-03.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री भिखारी प्रसाद	अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, भभुआ (कैमूर)	03.10.2012	B.A. L.L.B	कैमूर, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/05/8010/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

19 सितम्बर 2022

एस0ओ0 78, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/05/8010/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 19<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 78 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bhikhari Prasad**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7294/J** dated 03.10.2012 to practice as notary again for the next five year from **03.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bhikhari Prasad	Advocate Civil Court Bhabua (Kaimur)	03.10.2012	L.L.B	Kaimur (Bhabua) District	

(File no. -A/Not-22/05/8010/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एसओ 79, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री केशरी नन्दन मिश्र, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री केशरी नन्दन मिश्र	अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बेतिया	26.09.2012	B.A. L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-15/2007/7817/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एसओ 79, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-15/2007/7817/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 79 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Keshri Nandan Mishra**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7174/J** dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Keshri Nandan Mishra</b>	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	B.A. L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-15/2007/7817/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

29 नवम्बर 2022

एसओओ 80, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-862/जे0, दिनांक-17.03.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री कन्हैया सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-17.03.2023 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री कन्हैया सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, सासाराम, रोहतास	17.03.2003	B.Sc. L.L.B	रोहतास जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2000/9678जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

29 नवम्बर 2022

एसओओ 80, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/2000/9678जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 29<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 80 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Kanhaiya Singh**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **862/J** dated **17.03.2003** to practice as notary again for the next five year from **17.03.2023**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Kanhaiya Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Sasaram, Rohtas	17.03.2003	B.Sc. L.L.B	Rohtas Distt.-	

(File no. -A/Not-22/2000/9678/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 5 दिसम्बर 2022

एसओ 81, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7351/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव,	अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, कटिहार।	04.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी	कटिहार जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2006/9869/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 5 दिसम्बर 2022

एसओ 81, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-37/2006/9869/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 5<sup>th</sup> December 2022

S.O. 81 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bijay kumar Srivastava.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7351J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022.**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bijay kumar Srivastava	Advocate. Civil Court Katihar	04.10.2012	B.Sc L.L.B	Katihar Distt.-	

(File no. -A/Not-37/2006/9869/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

7 दिसम्बर 2022

एसओ 82, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विश्व विजय सिंह अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6
श्री विश्व विजय सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, महनार, वैशाली	05.10.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-32/2012/9971/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

7 दिसम्बर 2022

एसओ 82, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0जे0-32/2012/9971/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 7<sup>th</sup> December 2022

S.O. 82 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Vishwa Vijay Singh** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7424/J** dated **05.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **05.10.2017**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Vishwa Vijay Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Mahnar, Vaishali	05.10.2012	M.A L.L.B	Vaishali Distt.-	

(File no. -A/AJ-32/2012/9971/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

28 नवम्बर 2022

एसओ 83, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-6920/जे0, दिनांक-15.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-15.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री विनय कुमार श्रीवास्तव	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी	15.09.2012	B.A. L.L.B	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-35/2008/9677जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

28 नवम्बर 2022

एसओ 83, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-35/2008/9677जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 28<sup>th</sup> November 2022*

S.O. 83 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Binay Kumar Srivastava**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 6920/J dated **15.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **15.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Binay Kumar Srivastava	Advocate-cum-Notary Civil Court Patna City	15.09.2012	B.A. L.L.B	Patna Distt.-	

(File no. -A/Not-(S)-35/2008/9677/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)



5 दिसम्बर 2022

एसओ 84, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7355/जे0, दिनांक 04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती सरोज कुमारी अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रीमती सरोज कुमारी	अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट आरा (भोजपुर)	04.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	भोजपुर जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2006/9871/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

5 दिसम्बर 2022

एसओ 84, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-02/2006/9871/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 5<sup>th</sup> December 2022

S.O. 84 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Smt. Saroj Kumari** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7355/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Smt. Saroj Kumari	Advocate. Civil Court Ara	04.10.2012	B.Sc. L.L.B	Bhojpur District.-	

(File no. -A/Not-02/2006/9871/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

## 5 दिसम्बर 2022

एसओ 85, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7349/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नारायण प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री नारायण प्रसाद	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ	04.10.2012	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	पूर्णियाँ जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2002/9870/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

## 5 दिसम्बर 2022

एसओ 85, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-23/2002/9870/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 5<sup>th</sup> December 2022

S.O. 85 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Narayan Prasad** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **7349/J** dated **04.10.2012** to practice as notary again for the next five year from **04.10.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Narayan Prasad	Advocate-cum-Notary Civil Court Purnea	04.10.2012	B.Sc. L.L.B	Purnea Distt.-	

(File no. -A/Not-23/2002/9870/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

5 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 86, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्रीमती मधुलिका कुमारी, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्रीमती मधुलिका कुमारी	अधिवक्ता प0 चम्पारण (बेतिया)	26.09.2012	एम0ए0 एल0एल0बी0	प0 चम्पारण जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2005/9874/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

5 दिसम्बर 2022

एस0ओ0 86, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-18/2005/9874/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 5<sup>th</sup> December 2022

S.O. 86 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Smt Madhulika kumari** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No7174./J dated **26.09.2012** to practice as notary again for the next five year from **26.09.2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Smt Madhulika kumari	Advocate Civil Court Betiah	26.09.2012	M.A L.L.B	West Champan Distt.-	

(File no. -A/Not-18/2005/9874/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 87, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1883/जे0, दिनांक-30.05.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार लाल, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-30.05.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री अरूण कुमार लाल	अधिवक्ता-सह-नोटरी सिविल कोर्ट, पटना	30.05.2002	बी0एस0सी0 एल0एल0बी0	पटना जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2000/9493/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 नवम्बर 2022

एस0ओ0 87, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-87/2000/9493/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 21<sup>st</sup> November 2022*

S.O. 87 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Arun kumar Lal** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **1883/J** dated **30-05-2002** to practice as notary again for the next five year from **30-05-2022**.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
<b>Shri Arun kumar Lal</b>	Advocate, Civil Court Patna	30-05-2002	B.Sc L.L.B	Patna Distt.-	

(File no. -A/Not-87/2000/9493/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

21 अक्टूबर 2022

एसओ 88, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-05.10.2017 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री भगवान सिंह	अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर, (वैशाली)	05.10.2012	B.A. L.L.B	वैशाली जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2006/8792/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

21 अक्टूबर 2022

एसओ 88, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-60/2006/8792/जे0)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

The 21<sup>st</sup> October 2022

S.O. 88 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Bhagwan Singh.** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7424/J dated -05.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 05.10.2017.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Bhagwan Singh	Advocate-cum-Notary Civil Court Hajipur (Vaishali)	05.10.2012	B.A. L.L.B	Vaishali Distt.-	

(File no. -A/Not-60/2006/8792/J)  
By Order of the Governor of Bihar,  
Umesh Kumar Sharma, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

13 सितम्बर 2022

एसओ 89, दिनांक 4 जनवरी 2023--नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7174/जे0, दिनांक-26.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-26.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय / व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री संजय कुमार	अधिवक्ता-सह-नोटरी प0 चम्पारण, बेतिया	26.09.2012	B.Sc.(Hons) L.L.B	प0 चम्पारण, जिला	

(सं0 सं0-ए0/नोट-4/06/7818/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

13 सितम्बर 2022

एसओ 89, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-4/06/7818/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उमेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव।  
(सक्षम प्राधिकार)

*The 13<sup>th</sup> September 2022*

S.O. 89 dated the 4<sup>th</sup> January 2023---In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Sanjay Kumar**. and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7174/J dated 26.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 26.09.2022.

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Sanjay Kumar	Advocate Civil Court Bettiah	26.09.2012	B.Sc. (Hons) L.L.B	West Champaran District	

(File no. -A/Not-4/06/7818/J)

By Order of the Governor of Bihar,  
**Umesh Kumar Sharma**, Joint Secretary.  
(Competent Authority)

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर 2022

सं० 15/ए 6-02/2008 (अंश I)-3966—श्री दिवेश कुमार चौधरी, उप निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष-सह-निदेशक, दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना का प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सौंपा जाता है।

2. उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

3. इस प्रसंग में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 617 दिनांक 09.03.2019 को विलोपित किया जाता है।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संजय कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 42—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

### निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

#### सूचना

सं० 1461—मैं उपेन्द्र प्रसाद पिता श्री रामदीप प्रसाद, ग्राम—टोहही, पो०—मखदुमपुर भंगोसा, थाना—वजीरगंज, गया—805131 का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से यह घोषणा करता हूँ कि मैं आज से उपेन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा। अब से मैं उपेन्द्र प्रसाद के स्थान पर उपेन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा। शपथ पत्र संख्या— 46840, दिनांक 21.11.2022 ।

उपेन्द्र प्रसाद ।

No. 1462—I, Choudhary Balram Roy S/O Choudhary Balichandra Roy R/O R. S. Tank, Ward No. 45 Balbhadrapur, Post—Laheriasarai Darbhanga Bihar -846001. do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit No-58 dated, 01-12-2022 that my name is Choudhary Balram Roy But in my son (Santosh Kumar Roy) class xth having Roll No-5108603 in C.B.S.E. board migration certificate and marksheet my name has been wrongly mentioned as Balram Roy. But my true and correct name is Choudhary Balram Roy.

Choudhary Balram Roy.

सं० 1465—मैं, प्रकाश कुमार, (Prakash Kumar) पिता—दिलीप चौधरी ,निवासी—ग्राम—गौसी छपरा, पो०—पिपराहाँ, थाना—कांटी, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार— 843109 शपथ पत्र सं. 13729/23.10.2021 द्वारा सूचित करता हूँ कि अब से मैं प्रकाश कुमार चौधरी (Prakash Kumar Chaudhary) के नाम से जाना जाऊंगा।

प्रकाश कुमार ।

सं० 4—मैं दिवेश, पिता- सुबोध कुमार सिन्हा , निवासी- मंगल भवन, मछुआटोली, मछली मार्केट लेन, आर्य कुमार रोड, थाना- कदमकुआं, पो.- बांकीपुर, पटना 800004 बिहार। सूचित करता हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम दिवेश (Divesh) है। शपथ पत्र सं.- 889 दिनांक -13/12/22 द्वारा अब मैं दिवेश सिन्हा (Divesh Sinha)के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा ।

दिवेश ।

सं० 5—मैं चेतना कुमारी, पति—आशीष कुमार, मोहल्ला — बहादुरपुर हाउसिंग कौलोनी, ब्लॉक नं०—01, सेक्टर—03, एम. आई. जी.—18, कंकडबाग, पो.—बहादुरपुर, थाना—अगमकुआं, जिला—पटना (बिहार) शपथ संख्या—1197, दिनांक—03—12—2022, द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे चेतना कुमारी के नाम से जाना जाता है, और भविष्य में भी मुझे चेतना कुमारी के नाम से जाना जायेगा । मेरे पुत्र आयुष आनन्द लाल के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दशवीं (10वीं) कक्षा के अंक प्रमाण—पत्र में भूलवश माता का नाम चेतना लाल अंकित हो गया है जबकि सही नाम चेतना कुमारी है ।

चेतना कुमारी ।

सं० 6—मैं जुलेखा खातून, पत्नी—सैदुल सरकार, आवास सं०—c/5—राजभवन परिसर, पटना—22, शपथ पत्र संख्या 02 दिनांक 06.07.22 के द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे सभी प्रमाण पत्र 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई. डी.कार्ड एवं बैंक खाता में मेरा नाम जुलेखा खातून सही अंकित है। मेरे पुत्र सादिम अली सरकार के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं उत्तीर्णता वर्ष 2020 के प्रमाणपत्र मार्कशीट एवं अन्य प्रमाण पत्रों में माता का नाम जुलेखा अंकित है। जो गलत है। मेरा सही नाम जुलेखा खातून है।

जुलेखा खातून ।



सं० 20—मैं रघुनन्दन पाण्डेय (Raghu Nandan Pandey) पिता- हरेन्द्र पाण्डेय, ग्राम- उपाध्याय टोला, कुवा मठिया, थाना- चनपटिया, पश्चिम चम्पारण, बिहार शपथ पत्र सं०-02/03.01.2023 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी प्रमाण पत्रों में भुलवश स्वेता (Sweta) दर्ज हो गया है, जो गलत है। सही नाम स्वेता पाण्डेय (Sweta Pandey) है। और अब इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी।

रघुनन्दन पाण्डेय।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 42—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>